




Army Public School , Kirkee Grade: IV

Holiday Homework - Interdisciplinary Project
(Academic Year 2023-24)





***Listening- Watch** and enjoy the movie **“Heroes of the City”**.

***Speaking and Reading Skill** : Read any book of your choice and make a video explaining what you learnt from that book.

***Writing** - Write a paragraph on the topic **“My Favourite City”** and stick pictures of important monuments/buildings in that city.

***Vocabulary** – Pick out the new words from **L-1 and Poem- ‘Where go The Boats?’**

Draw “My Garden of New Words” in the Note Book.(any 15)



हिन्दी



विषय – हिन्दी
मेरा शहर



1. अपने शहर के किसी स्थान की यात्रा के खट्टे-मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक A4 शीट पर लेख लिखिए (80-100 शब्दों में) | चित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है |

2. अपने शहर के किसी भी चार इमारतों के बारे में जानकारी चित्रों का उपयोग करके A4 शीट पर उनके बारे में लिखें |



3. आपके शहर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों के बारे में इंटरनेट से तथा अपने माता-पिता से जानिए |


MATHEMATICS

ACTIVITY

DRAWING WITH DIGITS

Step 1 : Take few coloured sheets. Write the correct formation of all the digits.

Step 2: Be creative to turn each digit from 1 to 9 into any object.



CITY CALCULATION


- Step 1 : Explore the pincode of **five** major areas of your city. Fill the above data in a table "My City", made on a ruled sheet.

<u>MY CITY</u>				
<u>Sno</u>	<u>Area Name</u>	<u>Pincode</u>	<u>Pincode (Indian System)</u>	<u>Pincode (International System)</u>

- Step 2: Put commas and write number names of the pincode as per Indian and International place value system.
- Step 3: Arrange the areas in increasing order of pincode.


SHAPE PLAY

- Step 1: Take several coloured papers.
- Step 2: Integrate your mathematical skill with art. Create faces of various cartoon characters with the basic shapes of Maths.
- Step 3: Paste your cartoon faces on another colored sheet.



FUN WITH NUMBERS


- Step 1 : Create a DIY model of Abacus for 6-digit number.
- Step 2 : Practice the representation of any ten numbers on it.



NOTE : Put all the Summer Activities of Mathematics in a folder.

EVS


- **History of your city:** Language spoken, when was it formed, who ruled it?
- **Art and Craft:** Study about the famous art and craft of your city.
- **Heritage spots :** Identify the various Heritage Spots in your city. Collect pictures of the various Heritage spots and make a collage of it .
- **Wildlife sanctuaries :** Explore some of the wildlife sanctuaries near your city which one must visit to enjoy a great time away from the hustle bustle amid the greenery and wildlife.
- **Make a poster on wildlife conservation . (A 4 size sheet)**



● **Cuisine** : Allow yourself to explore the kitchen, grab the chopping board and unleash the chef in you who is promoting the regional cuisine of your city.

Do as instructed-

1. Choose any one vegetarian dish from your state.
2. Search for its recipe.
3. Collect all the ingredients and under the supervision of an elder family member, cook the dish.
4. Make a video of your experiential learning.
5. Keep giving instructions and entertain your viewers like a professional chef .
6. You can do the recording of smaller parts and later on edit in one video via video making apps.



Computer Project



Holiday
Homework

❖ **Make a collage of :**

“Parts inside the System unit”

**Resources : Newspaper and
Magazines (Make collage in your
computer notebook).**

PHYSICAL EDUCATION

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1) Slow Jogging | = 2 Min |
| 2) Warmup Exercise | = 2 Min |
| 3) Fast Running | = 2 Min |
| 4) Skipping | = 2 Min |
| 5) Cycling | = 5 Min |
| 6) Stretching Exercise | = 2 Min |
| 7) Sun-Salutation | = 3 Min |
| 8) Shuttle Runs | = 2 Min |
| 9) Pranayama- (Shitli) with tongue | = 3 Min |
| 10) Standing Asana –Tada asana | = 2 Min |
| 11) Sitting Asana –Padma asana | = 2 Min |



DO THESE EXCERSICES EVERYDAY.
STAY FIT SATY HEALTHY.



MUSIC

Listen & learn the song:

MILE SUR MERA TUMHARA

Learn the PRAYERS, PLEDGE, AWES SONG &
NATIONAL ANTHEM.

DANCE

LEARN THE FOLK DANCE OF YOUR STATE



- *See, observe, draw and color*
- *Draw any One*
- *Use any medium*



HAVE A NICE
SUMMER
VACATION!

Thank
you!

Courtesy: Google, You Tube